



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404]

नई दिल्ली, शुक्रवार, विसम्बर 11, 1981/अग्रहायण 20, 1903

No. 404]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1981/AGRAHAYANA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्य और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

भारतीय वन सेवा (कर्नाटक संवर्ग की पद संख्या का नियतन)  
नियमावली, 1981

सं० का० नि० 657 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् पतञ्जला निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक :—इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (कर्नाटक संवर्ग की पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1981 है।
2. कर्नाटक राज्य के संवर्ग की पद संख्या का नियतन :

भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) और भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1966 में दी गई किसी बात के बावजूद भी, इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट अवधियों के लिए, भारतीय वन सेवा

के कर्नाटक राज्य संवर्ग के पद और संवर्ग की पद संख्या तथा उसका गठन उक्त अनुसूची के कालम 2 के अनुसार होगा।

अनुसूची

अवधिया	भारतीय वन सेवा के कर्नाटक राज्य संवर्ग के पद तथा संवर्ग के पद संख्या और गठन	
1	2	3
1-4-1968	1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	47
से	मुख्य वनपाल	1
31-3-1969	वनपाल	4
	वनपाल, कार्य योजना तथा विकास	1
	उप-वनपाल	29
	उप-वनपाल सर्वेक्षण तथा सीमांकन	1
	उप-वनपाल, रबड़ बागान	1
	उप-वनपाल, कार्य योजना	5
	वन-उपयोगिता अधिकारी	1
	वन-संवर्धनिक	1

1	2	3	1	2	3
	मुख्य वनपाल के तकनीकी सहायक	1		4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	34
	मुख्य-वनपाल के अपर तकनीकी सहायक	1		5. उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व	
	उप-वनपाल, भूमि संरक्षण योजना	1		6क. तदर्थ प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6
		47		6. उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व	4
2. केन्द्रीय सरकार के अधीन बरिष्ठ पद		4		7. उपर्युक्त 1 के 20 प्रतिशत के हिसाब से कमिष्ठ पद	7
		51		8. उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व	2
3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद		17		सीधी भर्ती वाले पद	54
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद		34		पदोन्नति वाले पद	17
5. उपर्युक्त 4 के लिए 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व		5		कुल प्राधिकृत पद संख्या	75
5क. तदर्थ प्रतिनियुक्ति रिजर्व		4			
6. उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व		4			
7. उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से कमिष्ठ पद		7			
8. उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व		2			
		56			
सीधी भर्ती वाले पद		17			
पदोन्नति वाले पद		47			
कुल प्राधिकृत पद संख्या		73			
1-4-1969 से 31-3-1970 तक	राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ पद	47			
	मुख्य वनपाल	1			
	वनपाल	4			
	वनपाल, कार्ययोजना तथा विकास	1			
	उप-वनपाल	29			
	उप-वनपाल, सर्वेक्षण तथा सीमांकन	1			
	उप-वनपाल, रबड़ बागान	1			
	उप-वनपाल, कार्य योजना	5			
	वन उपयोगिता अधिकारी	1			
	वन-संवर्धनिक	1			
	मुख्य वनपाल के तकनीकी सहायक	1			
	मुख्य वनपाल के अपर तकनीकी सहायक	1			
	उप-वनपाल, भूमि संरक्षण योजना	1			
		47			
2. केन्द्रीय सरकार के अधीन बरिष्ठ पद		4			
		51			
3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद		17			

## व्यावहारिक ज्ञान

भारतीय वन सेवा के प्रारम्भिक गठन पर नियुक्ति के लिए वर्ष 1967 तथा 1968 में किए गए चयन के प्रयत्न के अन्तर्गत कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) वन सेवा के जिन अधिकारियों को उपर्युक्त समझा गया उन्हें भारतीय वन सेवा के राज्य स्तर में नियुक्त किया गया था। उनके बाद भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम 2 के अधीन भर्ती का काम हाथ में लिया गया। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1968 में तथा उसके बाद की वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर कुछ सीधी भर्ती के अधिकारियों को राज्य स्तर में अग्रवर्तित किया गया था।

2. किन्तु, भारतीय वन सेवा के कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) स्तर के प्रारम्भिक गठन पर की गई उपर्युक्त नियुक्तियों को बंगलूर स्थित मैसूर उच्च न्यायालय ने 1968 की रिट याचिका संख्या 1097, 1987, 1327, 2462 तथा 2488 के संबंध में अपने दिनांक 21 जुलाई, 1969 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया। तदनुसार, भारतीय वन सेवा के कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) स्तर में की गई प्रारम्भिक नियुक्तियों को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया था।

3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 का दिनांक पहली मार्च, 1971 को अधिसूचना संख्या 3/30/70-अ० भा० से० (4) द्वारा इस आशय से संशोधित किया गया था कि जहां उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन भर्ती के अनुसरण में उक्त सेवा में नियुक्तियां किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के कारण अवैध हो जाएं तो वहां केन्द्र सरकार उस उप-नियम के अधीन नई भर्ती कर सके तथा ऐसी नई भर्ती के अनुसरण में उक्त सेवा में की गई नियुक्ति को उसी तारीख से प्रवृत्त कर सके जिस तारीख को अवैध हो गई उक्त नियुक्तियां प्रवृत्त हुई थी। इसके फलस्वरूप, विशेष चयन बोर्ड को नवम्बर, 1979 में बंगलूर में बैठक हुई तथा भारतीय वन सेवा के कर्नाटक स्तर में प्रारम्भिक भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त पाए गए उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की। विशेष चयन बोर्ड की सिफारिशों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित करने के बाद, भारतीय वन सेवा के कर्नाटक स्तर के प्रारम्भिक गठन के समय प्रारम्भिक भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त समझे गए 60 अधिकारियों को उक्त स्तर में नियुक्त किया गया। भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 4(2) के अधीन पदोन्नति द्वारा भी नियुक्तियां की गईं। बाद में धी० एन० तादगीर के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों

के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन 8 प्राथियों के मामलों की दिनांक 11-3-1976 की अधिमूचना संख्या 17023/2/75-प्र० भा० से० (4) द्वारा पुनरीक्षा की गई तथा उनमें से उपयुक्त समझे गये 4 व्यक्तियों को भारतीय वन सेवा के कर्नाटक संवर्ग में प्रारम्भिक भर्ती के व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया।

4. कर्नाटक वन सेवा के श्री ए० सी० लक्ष्मण तथा चार अन्य अधिकारियों ने जिन्हें भारतीय वन सेवा में प्रारम्भिक भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था, कर्नाटक उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय वन सेवा कर्नाटक संवर्ग में की गई प्रारम्भिक नियुक्तियों को चुनौती देने हुए 1977 की रिट याचिका संख्या 4418, 7085 से 7088 बाबर की। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन विशेष जज बोर्ड ने 22-6-1981 को इन अधिकारियों के मामलों का पुनरीक्षा की तथा उन्हें प्रारम्भिक भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष जज बोर्ड की सिफारिशों को अनुमोदित करने के बाद इन अधिकारियों को दिनांक 30-7-1981 की अधिमूचना संख्या 17023/1/81-प्र० भा० से० (4) द्वारा 1-10-1966 से उक्त सेवा में नियुक्ति किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन तथा नए जज के आधार पर प्रारम्भिक गठन पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या का अधिमूचना में दर्शायी गई अभाव के लिए भारतीय वन सेवा के कर्नाटक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पदसंख्या से अधि-उपयोग हो गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिमूचना में दर्शायी गई, अवधियों के लिए तदर्थ प्रतिनियुक्ति रिजर्व के प्रावधान के फलस्वरूप, कर्नाटक संवर्ग की पदोन्नति सीमा के भीतर गिनतियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लिए उपर्युक्त संशोधन में उक्त अवधि के दौरान पदोन्नति द्वारा कर्नाटक राज्य संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों के हितों पर कोई प्रति-कूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन अवधियों के लिए प्रतिनियुक्ति रिजर्व में तदर्थ वृद्धि किए जाने से प्रारम्भिक भर्ती तथा सीधी भर्ती वालों के हितों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह वृद्धि उक्त सेवा के राज्य संवर्ग में किए गए, नए प्रारम्भिक जज के कारण तथा भारत के उच्चतम न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में प्रारम्भिक भर्ती के रूप में राज्य वन सेवा के कुछ अधिकारियों को नियुक्ति आवश्यक हो गई थी।

[सं० 16016/8/81-प्र० भा० से० (IV)]

जी० आर० श्रीनिवासन, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1981

#### THE INDIAN FOREST SERVICE (FIXATION OF CADRE STRENGTH OF KARNATAKA) RULES, 1981.

G.S.R. 657(E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, after consultation with the State Government of Karnataka, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength of Karnataka) Rules, 1981.

2. Fixation of Cadre Strength of the State of Karnataka:—

Not with standing anything contained in sub rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, and the

Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, the posts borne on, and the strength and composition of the cadre of the Indian Forest Service of the State of Karnataka for the period specified in Column 1 of the Schedule to these rules, shall be as specified in the column 2 of the said Schedule.

### SCHEDULE

Periods	Posts borne on and the strength and composition of the Cadre of the Indian Forest Service of the State of Karnataka	
1	2	3
1-4-1968 to	1. Senior Posts under the State Government	47
31-3-1969	Chief Conservator of Forests.	1
	Conservator of Forests	4
	Conservator of Forests, Working Plan and Development	1
	Deputy Conservator of Forests	29
	Deputy Conservator of Forests, Survey and Demarcation	1
	Deputy Conservator of Forests, Rubber Plantation	1
	Deputy Conservator of Forests, Working Plans	5
	Forest Utilisation Officer	1
	Silviculturist	1
	Technical Assistant to the Chief Conservator of Forests	1
	Additional Technical Assistant to the Chief Conservator of Forests	1
	Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation Scheme	1
		47
	2. Senior Posts under Central Government	4
		51
	3. Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966	17
	4. Posts to be filled by Direct Recruitment	34
	5. Deputation Reserve @ 15% of 4 above	5
	5(a) Ad-hoc Deputation Reserve	4
	6. Leave Reserve @ 11% of 4 above	4
	7. Junior Posts @ 20% of 4 above	7
	8. Training Reserve @ 5% of 4 above	2
	Direct Recruitment Posts	56
	Promotion Posts	17
	Total Authorised Strength	73

1	2	3
1-4-1969 to 31-3-1970	1. Senior Posts under the State Government	47
	Chief Conservator of Forests	1
	Conservator of Forests	4
	Conservator of Forests, Working Plan and Development	1
	Deputy Conservator of Forests	29
	Deputy Conservator of Forests, Survey and Demarcation	1
	Deputy Conservator of Forests, Rubber Plantation	1
	Deputy Conservator of Forests, Working Plans	5
	Forest Utilisation Officer	1
	Silviculturist	1
	Technical Assistant to the Chief Chief Conservator of Forests	1
	Additional Technical Assistant to the Chief Conservator of Forests	1
	Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation Scheme	1
		47
	2. Senior Posts under the Central Government	4
		51
	3. Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966	17
	4. Posts to be filled by Direct Recruitment	34
	5. Deputation Reserve @ 15% of 4 above	5
	5. Ad-hoc Deputation Reserve	6
	6. Leave Reserve @ 11% of 4 above	4
	7. Junior Posts @ 20% of 4 above	7
	8. Training Reserve @ 5% of 4 above	2
	Direct Recruitment Posts	58
	Promotion Posts	17
	Total Authorised Strength	75

## EXPLANATORY MEMORANDUM

On the basis of the first round of selection made in 1967 and 1968 for appointment at the initial constitution of the Indian Forest Service, Karnataka (Then Mysore) Forest Service Officers who were adjudged suitable were appointed to the State Cadre of the Indian Forest Service. Thereafter, recruitment under sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 was taken in hand. Accordingly, direct recruits were allocated to the State Cadre on the results of the annual examinations conducted by the Union Public Service Commission from 1967 onwards.

2. The aforesaid appointments at the initial constitution of the Karnataka (then Mysore) Cadre of the Indian Forest Service were however quashed by the High Court of Mysore at Bangalore in their judgement dated 25th July, 1969 in writ petition Nos. 1097, 1987, 1327, 2462 and 2488 of 1968. Accordingly, the initial appointments made to the Karnataka (then Mysore) Cadre of the Indian Forest Service were formally cancelled.

3. The Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 were amended vide notification No. 3/30/70-(i)-AIS(IV) dated the 1st March, 1971 so as to provide that where appointments to the Service, in pursuance of the recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the said Rules have become invalid by reason of any judgment or order of any Court, the Central Government may make fresh recruitment under that sub-rule and may give effect to the appointment to the service in pursuance of such fresh recruitment from the same date on which the appointments which had become invalid as aforesaid had been given effect to. Consequently, the Special Selection Board met at Bangalore in November, 1970 and drew up a list of candidates adjudged suitable for appointment as initial recruits to the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service. After the Union Public Service Commission approved the recommendations of the Special Selection Board, 60 officers adjudged suitable for appointment as initial recruits, were appointed to the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service at its initial constitution. Appointments by promotion were also made under rule 4(2) of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966. Subsequently, in pursuance of the orders of the Supreme Court of India in V.N. Nadgi's case, the case of 8 petitioners before the Supreme Court, were reviewed in February, 1976 and 4 of them were adjudged suitable and appointed as initial recruits to the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service, vide notification No. 17023/2/75-AIS(IV) dated 11-3-1976.

4. Shri A. C. Lakshmana and four others, Karnataka State Forest Service Officers, who were not adjudged suitable for appointment as initial recruits to the Indian Forest Service led writ petitions No. 4418, 7085 to 7088 of 1977 in the Karnataka High Court, challenging, inter-alia the initial appointments to the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service. Under the directions of the Karnataka High Court, the cases of these officers were reviewed by the Special Selection Board on 22-6-1981 and they were adjudged suitable for appointment as initial recruits. After the Union Public Service Commission approved the recommendations of the Special Selection Board, these officers were appointed to the Service with effect from 1-10-1966 vide Notification No. 17023/1/81-AIS(IV), dated 30-7-1981. Consequently the number of officers appointed at the initial constitution on the basis of fresh selection under the directions of the Supreme Court of India and the Karnataka High Court has resulted in over utilisation of the total authorised strength of the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service for the periods as indicated in the notification.

5. It is certified that consequent on the provision of ad-hoc deputation reserve for the periods shown in the notification, the number of vacancies in the promotion ceiling of the Karnataka Cadre remains unchanged. The above amendment would not as such affect adversely the interests of the officers appointed to the State Cadre of Karnataka by promotion during the said period. The interests of the initial recruits and the direct recruits will also not be affected by the ad-hoc increase in the deputation reserve for these periods, as the increase has been necessitated because of the fresh initial recruitment made to the State Cadre of the Service as well as appointment of certain State Forest Service officers as initial recruits in compliance with the directions of the Supreme Court of India and the Karnataka High Court.

[No. 16016/8/81-AIS(IV)]

V. R. SRINIVASAN, Under Secy.